

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, उत्तराखण्ड

NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, UTTARAKHAND

संदर्भ सं०/Ref. No.NITUK/_____

दिनांक/Date:_____

बाल शिक्षा भत्ता/छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन हेतु अनुरोध

Application for reimbursement of Children Education Allowance (CEA)/Hostel Subsidy (HS)

वित्तीय वर्ष के लिए दावा/Claim for the Financial Year _____

कर्मचारी का नाम/Name of the Employee :	कर्मचारी कोड/Employee Code:
पदनाम एवं विभाग/अनुभाग/Designation & Dept./Section:	
क्या विद्यालय/संस्थान केंद्र या राज्य सरकार या केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन या विश्वविद्यालय या किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसका उस क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र है जहां विद्यालय/संस्थान स्थित है? Whether School/Institute is recognized by the Central or State Govt. or UT administration or by University or a recognized educational authority having jurisdiction over the area where the School/Institute is situated? :	
<input type="checkbox"/> हां/Yes <input type="checkbox"/> नहीं/No	
क्या पति/पत्नी केंद्रीय या राज्य सरकार के कर्मचारी/केंद्रीय या राज्य पी०एस०यू० कर्मचारी/बैंक/स्वायत्त निकाय कर्मचारी हैं (जो लागू न हो उसे काट दें)?/Whether spouse is Central or State Govt. employee/Central or State PSU employee/Bank/Autonomous body employee (Strike out whichever is not applicable)? :	
<input type="checkbox"/> हां/Yes <input type="checkbox"/> नहीं/No	
क्या पति/पत्नी बाल शिक्षा भत्ता/छात्रावास सब्सिडी के हकदार हैं (यदि हां तो, निम्नलिखित विवरण प्रदान करें)?/Whether spouse is entitled for Children Education Allowance (CEA)/Hostel subsidy (HS) (if yes, provide the following details)? :	
<input type="checkbox"/> हां/Yes <input type="checkbox"/> नहीं/No	
- जीवनसाथी का नाम/Name of the Spouse: :	
- उस कार्यालय का नाम व पता जहां कार्यरत हैं।/Name and address of the Office where employed: :	
- वेतन स्तर एवं मूल वेतन/Pay Level & Basic Pay: :	
- क्या बाल शिक्षा भत्ता/छात्रावास सब्सिडी के लिए पात्र हैं।/Whether eligible for CEA/HS: :	
<small>(यदि हां, तो अपने नियुक्ता से प्रमाणपत्र जमा करें कि उसने अपने नियुक्ता से बाल शिक्षा भत्ता (सीईए)/छात्रावास सब्सिडी का दावा नहीं किया है) (If yes, submit certificate from his/her employer that he/she has not claimed CEA/HS from his/her employer)</small>	

बच्चे/बच्चों का विवरण/DETAILS OF CHILD/CHILDREN			
बच्चे/बच्चों का नाम Name of Child/Children	: 1 : 2 : 3*	कक्षा के लिए दावा Claim for the Class	
जन्मतिथि/DOB (dd/mm/yyyy)	: 1 : 2 : 3*	उम्र/Age	पिछली दावा की गयी कक्षा/Last claimed class
विकलांग (हां/नहीं)—यदि, हां केवल तभी जब बोर्ड द्वारा प्रमाणित और पहले से ही स्थापना अनुभाग को घोषित कम से कम 40% विकलांगता हो। Disabled (Yes/No) - If, Yes only if at least 40% disability as certified by a Board and already declared to Establishment Section	: 1 : 2 : 3*	विकलांगता का प्रकार (अस्थायी/स्थायी) & % Type of disability (Temporary/Permanent) & %	विकलांगता घोषित की गई Disability declared from (dd/mm/yyyy) (कृपया PWD प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें।/Please enclose the copy of PWD certificate)
विद्यालय का नाम, शहर और राज्य/School Name, City & State	: 1 : 2 : 3*		

* 31/12/1987 तक पैदा हुए तीन बच्चों तथा उसके बाद पैदा हुए दो सबसे बड़े जीवित बच्चों के संबंध में एक समय में बाल शिक्षा भत्ता/छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति की जायेगी। हालांकि, बाल शिक्षा भत्ता/छात्रावास सब्सिडी भी स्वीकार्य है, यदि दूसरे बच्चे के जन्म के परिणामस्वरूप जुड़वा या एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं। नसबंदी आपरेशन की विफलता के मामले में, बाल शिक्षा भत्ता/छात्रावास सब्सिडी सामान्य दो बच्चों के अलावा ऐसी विफलता की पहली घटना से पैदा हुए बच्चों के संबंध में स्वीकार्य होगा। The number of Children for whom the CEA/HS is drawn at a time should not exceed three in respect of children born upto 31-12-1987 and two eldest surviving children born thereafter. However, CEA/HS is also admissible, if the second child birth results in twins or multiple births. In case of failure of sterilization operation, the CEA/HS would be admissible in respect of children born out of the first instance of such failure beyond the usual two children.

क्र०सं०/ S.No.	नाम/Name	राशि/Amount		निवास से छात्रावास/संस्थान की दूरी (किमी में)/Distance from residence to Hostel/Institution (in Kms.)	टिप्पणी/Remarks
		सी०ई०ए०/ Children Education Allowance	एच०एस०/ Hostel Subsidy		
1.		₹	₹		
2.		₹	₹		
3.		₹	₹		
कुल/Total		₹	₹		

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, उत्तराखण्ड

NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, UTTARAKHAND

नोट / NOTE:

- प्रति बच्चा प्रति माह बाल शिक्षा भत्ते के लिए ₹2,250/- और आनुपालिक आधार पर प्रति बच्चा प्रति माह छात्रावास सस्सिडी के लिए ₹6,750/-।
₹2,250/- for Children Education Allowance per month per child and ₹6,750/- for Hostel Subsidy per month per child on prorata basis.
- दिव्यांग बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ता/छात्रावास सस्सिडी निर्धारित सामान्य दरों से दोगुनी दर पर देय होगा।
The CEA/HS for differently abled children shall be payable at double the normal rates prescribed.
- हर बार संशोधित वेतन संरचना पर मंहगाई भत्ता 50% बढ़ने पर सीमा स्वचालित रूप से 25% बढ़ जायेगी।
The limits would be automatically raised by 25% every time the Dearness Allowance on the revised pay structure goes up by 50%.
- दिव्यांग बच्चों के लिए ऊपरी आयु सीमा 22 वर्ष है। अन्य बच्चों के मामले में आयु सीमा 20 वर्ष या 12वीं उत्तीर्ण होने तक जो भी पहले हो। कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं है।/The upper age limit for Divyaang children is 22 years. In case of other children the age limit is 20 years or till the time of passing of 12th class whichever is earlier. There is no minimum age.
- बाल शिक्षा भत्ता/छात्रावास सस्सिडी की प्रतिपूर्ति कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के बच्चों के लिए लागू होगी, जिसमें कक्षा 11वीं एवं 12वीं भी शामिल है यानी कक्षा एक से 12वीं कक्षा से पहले दो कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के संबंध में और डिप्लोमा के शुरुआती दो वर्षों के लिए भी स्वीकार्य है। पॉलिटेक्निक/आई०टी०आई० से सर्टिफिकेट कोर्स, यदि बच्चा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद पाठ्यक्रम करता है और कर्मचारी को 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ाई के लिए बच्चे के संबंध में बाल शिक्षा भत्ता/छात्रावास सस्सिडी प्रदान नहीं किया जायेगा। पत्राचार या दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई करने वाले बच्चों के मामले में भी बाल शिक्षा भत्ता की अनुमति है।/The reimbursement of CEA/HS shall be applicable for children from class Nursery to twelfth, including classes 11th and 12th i.e. admissible in respect of children studying from two classes before class one to 12th standard and also for the initial two years of a diploma/certificate course from Polytechnic/ITI, if the child pursues the course after passing 10th standard and the employee has not been granted CEA/HS i.r.o. child for studies in 11th and 12th standard. CEA is also allowed in case of children studying through correspondence or distance learning.

घोषणा / DECLARATION

- प्रमाणित किया जाता है कि दावा मेरे वैध/कानूनी रूप से गोद लिये गये बच्चे/पूर्ण रूप से मुझ पर निर्भर बच्चों से संबंधित है।
Certified that the claim relates to my legitimate/legally adopted child/children wholly dependent on me.
- प्रमाणित किया जाता है कि बच्चे/बच्चों के लिए निर्दिष्ट शिक्षा भत्ता/छात्रावास सस्सिडी वास्तव में मेरे द्वारा विद्यालय/संस्थान को भुगतान कर दिया गया है।/ Certified that the Education Allowance (CEA) / Hostel Subsidy (HS) indicated against the Child/Children has actually been paid by me to the school/Institute.
- प्रमाणित किया जाता है कि दावे में शामिल अवधि के दौरान बच्चा नियमित रूप से विद्यालय गया और एक महीने से अधिक की अवधि के लिए उचित छुट्टी के बिना विद्यालय से अनुपस्थित नहीं रहा।/Certified that during the period covered by the claim the child attended the school regularly and did not absent himself/herself from the school without proper leave for a period exceeding one month.
- प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये विवरणों में किसी भी बदलाव की स्थिति में, जो बाल शिक्षा भत्ता/छात्रावास सस्सिडी की प्रतिपूर्ति के लिए मेरी पात्रता को प्रभावित करता है, मैं तुरंत इसकी सूचना देने और अतिरिक्त भुगतान, यदि कोई हो, वापस करने का वचन देता हूँ।/ Certified that in the event of any change in the particulars given above which affect my eligibility for reimbursement of Children Education Allowance/Hostel Subsidy, I undertake to intimate the same promptly and also to refund excess payment, if any made.
- प्रमाणित किया जाता है कि संस्थान के प्रमुख का प्रमाणपत्र संलग्न किया गया है।/ Certified that the certificate from Head of Institution has been attached.
- प्रमाणित किया जाता है कि संस्थान के प्रमुख का प्रमाणपत्र जिसमें स्पष्ट रूप से राशि का उल्लेख है (छात्रावास सस्सिडी के लिए) संलग्न किया गया है।/ Certified that the certificate from Head of Institution clearly mentioning the amount has been attached (for Hostel Subsidy).
- प्रमाणित किया जाता है कि मैंने या मेरे पति/पत्नी ने किसी अन्य स्रोत से इस प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया गया है और भविष्य में भी इसका दावा नहीं करूंगा।/ Certified that I or my spouse has not been claimed this re-imbursement from any other source and will not claim the same in future.
- प्रमाणित किया जाता है कि मेरा बच्चा जिसके संबंध में बाल शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति लागू की गई है, उस विद्यालय/कॉलेज में पढ़ रहा है जो शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त और संबद्ध है।/Certified that my child in respect of whom reimbursement of Children Education Allowance is applied is studying in the School/College which is recognized and affiliated to Board of Education/University.
- प्रमाणित किया जाता है कि मेरा बच्चा मेरे निवास से कम से कम 50 किलोमीटर दूर स्थित आवासीय शैक्षणिक संस्थान में पढ़ रहा है।
Certified that my child studying in a residential educational institution located at least 50 kilometers from my residence.
- ऊपर दिया गया विवरण/जानकारी पूर्ण और सही है और मैंने कोई भी प्रासंगिक जानकारी नहीं छिपाई है। इसके अलावा, मुझे पता है कि, यदि किसी भी स्तर पर ऊपर दी गई जानकारी/दस्तावेज गलत पाये जाते हैं, तो मैं सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी हूँ।/The particulars/information furnished above is complete and correct and I have not suppressed any relevant information. Further, I am aware that, if at any stage the information/documents furnished above is found to be false, I am liable for disciplinary action under CCS (Conduct) Rules, 1964.

दिनांक / Date: _____

कर्मचारी के हस्ताक्षर / Signature of employee

अग्रेषित / Forwarded अग्रेषित नहीं किया गया / Not Forwarded

विभागाध्यक्ष / अनुभाग प्रमुख / समन्वयक के प्रतिहस्ताक्षर
Counter Signature of HoD/Section Head/Coordinator

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, उत्तराखण्ड
NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, UTTARAKHAND

केवल कार्यालय प्रयोग हेतु / FOR OFFICE USE ONLY

क्र०सं० S.No.	नाम / Name	दावा राशि / Amount claimed		राशि स्वीकार्य / Amount admissible	
		सीईए / CEA	एचएस / HS	सीईए / CEA	एचएस / HS
1.		₹	₹	₹	₹
2.		₹	₹	₹	₹
3.		₹	₹	₹	₹
कुल / Total		₹	₹	₹	₹

पारिवारिक विवरण सत्यापन
Family particulars verified

विवरण की जांच एवं सत्यापन
Particulars checked and verified

कनिष्ठ सहायक (स्थापना)
Junior Assistant (Estt.)

अधीक्षक (स्थापना)
Superintendent (Estt.)

सहायक / उप-कुलसचिव (स्थापना)
Asstt./Dy. Registrar (Estt.)

दावा / बिलों की जांच
Claim/bills checked

दावा / बिलों की जांच एवं सत्यापन
Claim/bills checked and verified

कनिष्ठ सहायक (लेखा)
Junior Assistant (A/cs.)

अधीक्षक (लेखा)
Superintendent (A/cs.)

सहायक / उप-कुलसचिव (लेखा)
Asstt./Dy. Registrar (A/cs.)

अनुमोदित / Approved अनुमोदित नहीं किया गया / Not Approved

कुलसचिव / Registrar

सेवा में / To
सहायक / उप-कुलसचिव (लेखा) / Asstt./Dy. Registrar (Accounts)

नोट: सीईए/संबंधित की फाइल में रिकार्ड रखने हेतु, लेखा अनुभाग इस प्रपत्र की फोटोकॉपी स्थापना अनुभाग को अग्रेषित करेगा।
NOTE: Accounts Section shall forward a photocopy of this form to Establishment Section for keeping the record in CEA / Personal File.

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, उत्तराखण्ड
NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, UTTARAKHAND

CERTIFICATE FROM THE HEAD OF INSTITUTION/SCHOOL

(FOR REIMBURSEMENT CHILDREN EDUCATION ALLOWANCE & HOSTEL SUBSIDY)

Ref.No. _____

Date: _____

It is certified that Master/Kumari _____ having Roll No. _____ D.O.B _____ Son/Daughter of Mr./Mrs./Dr./Prof. _____ is a bonafide student of this school and studied in Class _____ Section _____ during the Financial Year _____ and as per school records his/her date of birth is _____.

The _____ School/Institution, _____ namely _____ is recognized by _____ vide registered affiliation No./Code _____ and having the _____ Curriculum/pattern.

* During the year Master/Kumari _____ had resided in the residential complex (Hostel) of the school and paid an amount of ₹ _____ towards boarding and lodging in the residential complex.

* **Strike out if it is not applicable.**

Place: _____

Date: _____

Signature of Head of the School/Institution

(With Stamp and seal)

NOTE: In the absence of certificate from the School/Institution, self-attested copies of the report card and fee receipts(s) [including e-receipts(s)] confirming/indicating that the fee deposited for the entire academic year. The period/year means academic year i.e. twelve months of complete academic session. Hostel subsidy is applicable only in respect of the child studying in a residential educational Institution located at least 50 kilometers from the residence of the Government servant.

The reimbursement of Children Education Allowance and Hostel Subsidy shall have no nexus with the performance of the child in his/her class. In other words, even if a child fails in a particular class, the reimbursement of CEA/HS shall not be stopped. However, if the child is admitted in the same class in another school, although the child has passed out of the same class in previous school or in the mid-session, CEA shall not be reimbursed.

SELF DECLARATION

I, _____ do hereby certify that my Son/Daughter namely _____ studied in Class _____ Section _____ Roll No. _____ during the Financial Year _____ in _____.

In the event of any change in the particulars given above which affect my eligibility for Children Education Allowance. I undertake to intimate the same promptly and refund excess payment, if any made to me.

Encl: Self-attested copies of the report card and fee receipts(s) [including e-receipts(s)].

Date: _____

Signature of applicant